



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1358]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 5, 2007/कार्तिक 14, 1929

No. 1358]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 5, 2007/KARTIKA 14, 1929

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 2007

का.आ. 1879(अ).—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में, भारत मौसम-विज्ञान विभाग के अधीन, जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय है, निम्नलिखित कार्यालयों को, जिनके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

- (1) मौसम केन्द्र, चण्डीगढ़
- (2) मौसम केन्द्र, अहमदाबाद
- (3) मौसम केन्द्र, रायपुर
- (4) मौसम कार्यालय, बेरागढ़

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[सं. मविम/1/29/2006-राजभाषा]

एम. एल. शर्मा, उप सचिव

MINISTRY OF EARTH SCIENCES

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st November, 2007

S.O. 1879(E).—In pursuance of sub-rule (4) of rule 10 of the Official Language (use for official purposes of the Union) Rules, 1976 the Central Government hereby notifies the following offices, under the India Meteorological Department, a subordinate office of the Ministry of Earth Sciences, whereof more than 80 percent staff have acquired the working knowledge of Hindi, namely :—

- (1) Meteorological Centre, Chandigarh
- (2) Meteorological Centre, Ahmedabad
- (3) Meteorological Centre, Raipur
- (4) Meteorological Office, Bairagarh

2. This notification shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

[MoOD/1/29/2006-OL]

M. L. SHARMA, Dy. Secy.